

# Jos

## Chapter 18

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

1  
מִוֶּעַד מִלֵּאָה אֶת־ שָׁם וַיִּשְׁכְּנוּ שָׁלָה יִשְׂרָאֵל בְּנֵי־ עֲדָת כָּל־ וַיִּקְהָלוּ  
मिलाप-का तम्बू की वहाँ और-बसाया शीलो इस्राएल बेटों-की मंडली सब- और-इकट्ठे-हुई  
H4150 H0168 H0853 H8033 H7931 H7887 H3478 H5712 H3605 H6950

וְהָאָרֶץ נִכְבְּשָׁה לְפָנֵיהֶם:  
और-भूमि वश-में-की-गई उनके-सामने  
H0776 H3533 H6440

इस्राएल के सभी लोगो शीलो नामक स्थान पर इकट्ठा हुए। उस स्थान पर उन्होंने मिलापवाले तम्बू को खड़ा किया। इस्राएल के लगे उस प्रदेश पर शासन करते थे। उन्होंने उस प्रदेश के सभी शत्रुओं को हराया था।

2  
וַיִּוְתְרוּ וַיִּוְתְרוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר לֹא־ חָלְקוּ אֶת־ גַּחְלָתָם שְׁבַעָה שְׁבַטִים:  
और-बचे बेटों-में इस्राएल जिन्होंने नहीं- को बाँटी उनकी-मीरास सात उनकी-मीरास गौत्र  
H3498 H3478 H3808 H0853 H5159 H7651 H7626

किन्तु उस समय भी इस्राएल के सात परिवार समूह ऐसे थे, जिन्हें परमेश्वर के द्वारा वचन दिये जाने पर भी उन्हें दी गई भूमि नहीं मिली थी।

3  
וַיֹּאמֶר יְהוֹשֻׁעַ אֶל־ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל עַד־ אָנָּה אַתֶּם מֹתְרִים לְבוֹא לְרִשְׁתָּ  
और-कहा यहोशू से- बेटों इस्राएल कब-तक कहाँ तुम ठीले-रहोगे जाने-को अधिकार-करने-को  
H0559 H3091 H0413 H3478 H5704 H0575 H5704 H0935 H3423

אֶת־ הָאָרֶץ אֲשֶׁר נָתַן לָכֶם יְהוָה אֱלֹהֵי אֲבוֹתֵיכֶם:  
को भूमि जिसे दी तुमको यहोवा परमेश्वर-के तुम्हारे-पूर्वजों-के  
H0853 H0776 H5414 H3068 H0430 H0001

इसलिए यहोशू ने इस्राएल के लोगों से कहा, “तुम लोग अपने प्रदेश लेने में इतनी देर प्रतीक्षा क्यों करते हो? यहोवा, तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर ने यह प्रदेश तुम्हें दिया है।

4  
הָבֹו לָכֶם שְׁלֹשָׁה אַנְשִׁים לְשֹׁבֵט וְאֶשְׁלָחֶם וַיִּקְמוּ וַיִּתְהַלְכוּ בְּאֶרֶץ וַיִּכְתְּבוּ אוֹתָהּ  
दो अपने-को तीन पुरुष गोत्र-पीछे और-भेजूँगा और-उठें और-चलें और-लिखें उसे  
H3051 H7969 H0376 H7626 H7971 H1980 H0776 H3789 H0853

לְפִי גַחְלָתָם וַיָּבֹאוּ אֵלָי:  
अनुसार उनकी-मीरास और-आएँ मेरे-पास  
H6310 H5159 H0935 H0413

इसलिए तुम्हारे प्रत्येक परिवार समूह को तीन व्यक्ति चुनने चाहिए। मैं उन व्यक्तियों को उन प्रदेशों की जाँच के लिए भेजूँगा। वे उस प्रदेश का विवरण तैयार करेंगे तब वे मेरे पास लौटेंगे।

5  
וַהֲתַחֲלֹקוּ אֹתָהּ לְשֹׁבְעָה חֲלָקִים יְהוֹדָה יַעֲזָר खड़ा-रहे एल- गְּבוּלָו מִנְּגַב וּבֵית יוֹסֵף  
और-बाँटें और-बाँटें उसे सात भागों-में यहूदा पर- अपनी-सीमा दक्षिण-से योसेप और-घराना  
H0853 H7651 H5975 H3063 H1366 H5045 H3130

יַעֲזָרָו עַל־ גְּבוּלָם מִצָּפוֹן:  
खड़े-रहें पर- अपनी-सीमा उत्तर-से  
H5975 H1366 H6828

वे देश को सात भागों में बाँटेंगे। यहूदा के लोग अपना प्रदेश दक्षिण में रखेंगे। यूसुफ के लोग अपना प्रदेश उत्तर में रखेंगे।

6 וְאֵלֶּים אֲתָתְכֶם וְהָאָרֶץ שְׁבַע חֲבָתֵי אֶרֶץ אֲלֵי מִן חֲבָתֵי וְיִירֵתִי לְכֶם  
 और-डालूंगा और-तुम और-लाओ और-लिखी और-भूमि और-सात और-भूमि और-आओ और-डालूंगा और-लिखी और-तुम

גִּזְרֵי פֶה לְפָנַי יְהוָה אֱלֹהֵינוּ:  
 चिट्ठी यहाँ सामने यहोवा के परमेश्वर-हमारे

किन्तु तुम लोगों को विवरण तैयार करना चाहिए और प्रदेश को सात भागों में बाँटना चाहिए। विवरण मेरे पास लाओ हम लोग अपने यहोवा परमेश्वर को यह निर्णय करने देंगे कि किस परिवार को कौन सा प्रदेश मिलेगा।

7 כִּי אֵין חֵלֶק לְלוֹיִם בְּקִרְבְּכֶם כִּי כָהֵנָה יְהוָה נְחֻלָּתוֹ וְגַר  
 क्योंकि-तुम्हारे-बीच लेवियों-को भाग नहीं-है क्योंकि और-गाद उनकी-मीरास यहोवा-का याजक-पद क्योंकि-यहोवा उनकी-मीरास और-गाद

וְרֵאוּבֵן וְחֲצִי מִנְשֵׁה וְלִקְחוּ מִמֶּנּוּ מִן־הַמְּנַשֵּׁה לְכָחוֹ נְחֻלָּתָם מֵעֵבֶר לַיַּרְדֵּן מִזְרְחָה אֲשֶׁר נָתַן  
 और-रूबेन और-आधा और-गोत्र और-चुके ले-चुके अपनी-मीरास पार के यरदन-के पूर्व-ओर जिससे दी

לְחֵם מִשָּׂה עֶבֶד יְהוָה:  
 उनको मूसा दास यहोवा-के

किन्तु लेवीवंशी लोग इन प्रदेशों का कोई भी भाग नहीं पाएंगे। वे याजक हैं और उनका कार्य यहोवा की सेवा करना है। गाद, रूबेन और मनश्शे के परिवार समूहों के आधे लोग पहले ही वचन के अनुसार दिया गया अपना प्रदेश पा चुके हैं। ये प्रदेश यरदन नदी के पूर्व में हैं। यहोवा के सेवक मूसा ने उस प्रदेश को उन्हें पहले ही दे दिया था।”

8 וַיִּקְמוּ הָאֲנָשִׁים וַיָּלְכוּ וַיִּצְוּ יְהוֹשֻׁעַ אֶת־הַחֲלוּסִים לְכַתֵּב אֶת־הָאָרֶץ לְאֹמֶר  
 और-उठे और-चले और-आज्ञा-दी और-यहोशू को जाने-वालों को लिखने-को और-आज्ञा-दी और-भूमि कहकर

לָכוּ וְהִתְחִלְכוּ בְּאֶרֶץ וְכַתְּבוּ אוֹתָהּ וְשׁוּבוּ אֵלַי מִרְחֹק וְכָתְבוּ לְכֶם אֲשֶׁר־לִי  
 जाओ और-चलो और-लिखी और-लौटो और-पास मेरे-यहाँ और-लिखी और-तुम्हारे-लिए और-डालूंगा और-चलो और-लिखी और-आओ

לְפָנַי יְהוָה בְּשִׁלֹה:  
 सामने यहोवा शीलो-में

इसलिए चुने गये व्यक्ति उस भूमि को देखने और उस का विवरण लिखने चले गये। यहोशू ने उनसे कहा, “जाओ, और उस प्रदेश की जाँच करो तथा उसके विवरण तैयार करो। तब मेरे पास लौटो। उस समय मैं यहोवा से कहूँगा कि जो देश तुम्हें मिलेगा उसे चुनने में वे मेरी सहायता करे।”

9 וַיָּלְכוּ הָאֲנָשִׁים וַיַּעֲבְרוּ בְּאֶרֶץ וַיְכַתְּבוּהָ וַיָּעֲבְרוּ עָלֶיהָ לְעָרֵים שָׂבַע חֲבָתֵי מִן חֲבָתֵי עַל־סֵפֶר  
 और-गए और-लिखी और-गुजरे और-भूमि-में और-लिखी और-लौटो और-अनुसार और-सात और-भागों-में और-पर-पुस्तक

וַיָּבֹאוּ אֶל־יְהוֹשֻׁעַ אֶל־הַמַּחֲנֶה שְׁלֹה:  
 और-आए और-पास-यहोशू और-पास-छावनी शीलो

इसलिए उन पुरुषों ने वह स्थान छोड़ा और उस देश में वे गए। उन्होंने देश की जाँच की और यहोशू के लिए विवरण तैयार किए। उन्होंने हर नगर की जाँच की और पाया कि प्रदेश के सात भाग हैं। उन्होंने अपने विवरणों को तैयार किया और यहोशू के पास आए। यहोशू तब भी शीलो के डेरे में था।

10 וַיִּשְׁלַח וַיִּשְׁלַח לְחֵם וַיְהוֹשֻׁעַ גִּזְרֵי בְּשִׁלֹה לְפָנַי יְהוָה וַיַּחֲלֶק אֶת־הָאָרֶץ  
 और-डाला और-लिखी उनके-लिए और-यहोशू चिट्ठी शीलो-में सामने यहोवा और-बाँटा-वहाँ यहोशू को भूमि

לְבָנֵי יִשְׂרָאֵל כְּמִחְלָקָתָם:  
 बेटों-को इस्राएल और-अनुसार उनके-भागों-के

इसलिए उन पुरुषों ने यहोशू के पास उनके विवरणों को तैयार किया और यहोशू के पास आए। यहोशू तब भी शीलो के डेरे में था।

उस समय यहोशू ने यहोवा से सहायता माँगी। यहोशू ने हर एक परिवार समूह को देने के लिए एक प्रदेश चुना। यहोशू ने प्रदेश को बाँटा और हर एक परिवार समूह को उसके हिस्से का प्रदेश दिया।

גִּזְרֵלָם उनकी-चिट्ठी-की <a href="#">H11486</a>	גְּבוּל सीमा <a href="#">H1366</a>	וַיָּצֵא और-निकली <a href="#">H3318</a>	לְמִשְׁפַּחָתָם उनके-कुलों-के-अनुसार <a href="#">H4940</a>	בְּנֵימִן बिन्यामीन <a href="#">H1144</a>	בָּנֵי- बेटों- <a href="#">H4294</a>	מִטָּה गोत्र-की <a href="#">H1486</a>	גִּזְרֵל चिट्ठी <a href="#">H5927</a>	וַיָּצֵא और-निकली <a href="#">H5927</a>	11
--	--	---	--	---	--	---	---	---	----

בְּנֵי יוֹסֵף: योसेफ <a href="#">H3130</a>	בָּנֵי बेटों <a href="#">H0996</a>	וּבֵין और-बीच <a href="#">H3063</a>	יְהוּדָה यहूदा <a href="#">H3063</a>	בָּנֵי बेटों <a href="#">H0996</a>	בֵּין बीच <a href="#">H0996</a>
--	--	---	--	--	---------------------------------------

बिन्यामीन के परिवार समूह को वह प्रदेश दिया गया जो यूसुफ और यहूदा के क्षेत्रों के बीच था। बिन्यामीन परिवार समूह के हर एक परिवार ने कुछ भूमि पाई। बिन्यामीन के लिए चुना गया प्रदेश यह था:

יְרִיחוֹ यरीहो-की <a href="#">H3405</a>	כְּתָף ढलान <a href="#">H3802</a>	אֶל- तक- <a href="#">H0413</a>	הַגְּבוּל सीमा <a href="#">H1366</a>	וְעַלָּה और-चढ़ी <a href="#">H5927</a>	הַיַּרְדֵּן यरदन <a href="#">H3383</a>	מִן- से- <a href="#">H6828</a>	צְפוֹנָה उत्तर-दिशा <a href="#">H6285</a>	לְפָאֵת ओर- <a href="#">H6285</a>	הַגְּבוּל सीमा <a href="#">H1366</a>	לְהֵם उनकी <a href="#">H1961</a>	וַיְהִי और-थी <a href="#">H1961</a>	12
---	---	--------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------	---	---	--	--	---	----

אֶן-בַּיִת बैत-आवेन <a href="#">H1007</a>	מִדְּבָרָה जंगल <a href="#">H8444</a>	הַצְּאֲתָיו उसकी-सीमाएँ <a href="#">H1961</a>	(וְהָיָה) और-थी <a href="#">H1961</a>	אֶל- — <a href="#">H3220</a>	מִמְּצִפֹּן उत्तर-से <a href="#">H6828</a>	וְעַלָּה और-चढ़ी <a href="#">H5927</a>	בְּהָר पहाड़-में <a href="#">H2022</a>	אֶל- पश्चिम-ओर <a href="#">H3220</a>	וְהָיָה — <a href="#">H1961</a>	וְהָיָה — <a href="#">H1961</a>	וְהָיָה — <a href="#">H1961</a>
---	---	---	---	------------------------------------	--	--	--	--	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

इसकी उत्तरी सीमा यरदन नदी से आरम्भ हुई। यह सीमा यरीहो के उत्तरी छोर से गई थी। तब यह सीमा पश्चिम के पहाड़ी प्रदेश में गई थी। यह सीमा लगातार बैतावेन के ठीक पूर्वी ढलान तक थी।

וַיְרֵד और-उतरी <a href="#">H3381</a>	בֵּית-אֵל बैतएल <a href="#">H1008</a>	הָיָה वह <a href="#">H1931</a>	הַגְּבוּל दक्षिण-ओर <a href="#">H5045</a>	לְיוֹזָבָב लूज़-की <a href="#">H3870</a>	כְּתָף ढलान <a href="#">H3802</a>	אֶל- तक- <a href="#">H0413</a>	לְיוֹזָבָב लूज़ <a href="#">H3870</a>	הַגְּבוּל सीमा <a href="#">H1366</a>	מִשֶּׁם वहाँ-से <a href="#">H8033</a>	וְעַבְרָה और-गुज़री <a href="#">H8033</a>	13
---	---	--------------------------------------	---	--	---	--------------------------------------	---	--	---	---	----

הַגְּבוּל सीमा <a href="#">H1366</a>	אֶל- पर- <a href="#">H2022</a>	הָהָר पहाड़ <a href="#">H2022</a>	אֲשֶׁר जो <a href="#">H5045</a>	מִמְּצִפֹּן दक्षिण-में <a href="#">H5045</a>	לְבֵית-חֶרְוֵן बैत-होरोन <a href="#">H1032</a>	תְּחִלָּתוֹ: निचले <a href="#">H8481</a>
--	--------------------------------------	---	---------------------------------------	--	--	--

तब यह सीमा लूज़ (यानी बेटेल) के दक्षिणी ढलान तक गई। फिर यह सीमा अत्रोटदार तक नीचे गई। अत्रोटदार निचले बेथोरोन की दक्षिणी पहाड़ी के ढलान पर है।

פְּנֵי सामने <a href="#">H6440</a>	עַל- पर- <a href="#">H6440</a>	אֲשֶׁר जो <a href="#">H2022</a>	הָהָר पहाड़ <a href="#">H2022</a>	מִן- से- <a href="#">H5045</a>	הַגְּבוּל दक्षिण-ओर <a href="#">H5045</a>	אֶל- समुद्र <a href="#">H3220</a>	לְפָאֵת ओर- <a href="#">H6285</a>	וּנְסֹב और-घूमी <a href="#">H5437</a>	הַגְּבוּל सीमा <a href="#">H1366</a>	וַתָּאָר और-मुड़ी <a href="#">H1366</a>	14
--	--------------------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------------------	---	---	---	---	--	---	----

עִיר नगर <a href="#">H7157</a>	יְעָרִים-קִרְיַת किर्यत-यारीम <a href="#">H1931</a>	הָיָה वह <a href="#">H1931</a>	קִרְיַת-בְּעַל किर्यत-बाल <a href="#">H7154</a>	אֶל- पास- <a href="#">H0413</a>	הַצְּאֲתָיו उसकी-सीमाएँ <a href="#">H8444</a>	(וְהָיָה) और-थी <a href="#">H1961</a>	וְהָיָה — <a href="#">H1961</a>	בְּנֵי दक्षिण-ओर <a href="#">H5045</a>	בֵּית-חֶרְוֵן बैत-होरोन <a href="#">H1032</a>
--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	---------------------------------------	---	---	---------------------------------------	--	---

בְּנֵי बेटों <a href="#">H3220</a>	יְהוּדָה यहूदा-की <a href="#">H3063</a>	זֶאת यह <a href="#">H2063</a>	פָּאֵת ओर- <a href="#">H6285</a>	אֶל- पश्चिम <a href="#">H3220</a>
--	---	-------------------------------------	--	---

बेथोरोन दक्षिण में एक पहाड़ी है। यहाँ सीमा इस पहाड़ी पर मुड़ी और उस पहाड़ी की पश्चिमी ओर के निकट से दक्षिण को गई थी। यह सीमा किर्यतबाल (किर्यत्यारीम) को गई। यह एक नगर है, जहाँ यहूदा के लोग रहते थे। यह पश्चिमी सीमा थी।

מְעֵין सोते <a href="#">H4599</a>	אֶל- पास- <a href="#">H0413</a>	וַיָּצֵא और-निकली <a href="#">H3318</a>	מִמְּצִפֹּן पश्चिम-ओर <a href="#">H3220</a>	הַגְּבוּל सीमा <a href="#">H1366</a>	וַיָּצֵא और-निकली <a href="#">H3318</a>	יְעָרִים-קִרְיַת किर्यत-यारीम <a href="#">H7157</a>	מִקְצֵה किनारे-से <a href="#">H5045</a>	הַגְּבוּל दक्षिण-दिशा <a href="#">H5045</a>	וּפָאֵת और-ओर- <a href="#">H6285</a>	15
---	---------------------------------------	---	---	--	---	---	---	---	--	----

נְפְתוֹחַ: नेप्तोह <a href="#">H5318</a>	מִי पानी-के <a href="#">H4325</a>
--	---

दक्षिण सीमा किर्यत्यारीम से आरम्भ हुई और नेप्तोह प्रपात को गई।



22 הָעִיר בְּהַר בֵּית אֱלֹהִים וּבֵית אֱלֹהִים :  
 और-बैतएल और-समरायिम और-बैत-अराबा  
[H1008](#) [H6787](#) [H1026](#)

बेतराबा, समारैम, बेतेल,

23 וְהַעֲוִים וְהַפְּרָה וְעַפְרָה :  
 और-आव्मीम और-पारा और-ओप्रा  
[H6084](#) [H6511](#) [H5761](#)

अव्मीम, पारा, ओप्रा,

24 [הַעֲמוֹנִי וְכַפָּר] (הַעֲמוֹנָה וְכַפָּר) וְהַעֲפְנִי וְנֹבַע עָרִים שְׁתֵּים־עָשָׂר וְחֻצְרוֹתָיִן :  
 और-कपर और-कपर (और-कपर-अम्मोना और-ओप्री और-गेबा और-नगर -बारह-दस और-उनकी-बस्तियाँ)  
[H3726](#) [H3726](#) [H6078](#) [H1387](#) [H8147](#) [H6240](#)

कपरम्मोनी, ओप्री और गेबा। ये बारह नगर, उस छोटे क्षेत्र में, उनके आसपास खेतों सहित थे।

25 גִּבְעוֹן וְהַרְמָה וּבְאֵרֹת :  
 गिबोन और-रामा और-बेरोत  
[H0881](#) [H7414](#) [H1391](#)

बिन्यामीन के परिवार समूह के पास गिबोन, रामाबेरोत,

26 וְהַמִּצְפָּה וְהַכְּפִירָה וְהַמְּנָה :  
 और-मिसपे और-कपीरा और-मोसा  
[H4681](#) [H3716](#) [H4708](#)

मिसपा, कपीरा मोसा,

27 וְרָקֵם וְיִרְפָּאֵל וְתַרְאֵלָה :  
 और-रेकेम और-यिरपेल और-तराला  
[H8634](#) [H3416](#) [H7552](#)

रेकेम, यिर्पेल, तरला,

28 וְצִלְעַ וְהָאֵלֶף וְהַיְבוּסִי הָיָא יְרוּשָׁלַם גְּבַעַת קִרְיַת עָרִים אַרְבַּע־עָשָׂר  
 और-सेला एलेप और-यबूसी वह यरूशलेम गिबात किर्यत नगर -चौदह-दस  
[H0507](#) [H2983](#) [H1931](#) [H3389](#) [H1394](#) [H7157](#) [H0702](#) [H6240](#)

וְחֻצְרוֹתָיִן וְזֹאת נַחֲלַת בְּנֵי-בִנְיָמִן לְמִשְׁפַּחָתָם :  
 और-उनकी-बस्तियाँ यह मीरास बेटों-बिन्यामीन उनके-कुलों-के-अनुसार  
[H5159](#) [H2063](#) [H1144](#) [H4940](#)

सेला, एलेप, यबूस (यरूशलेम), गिबत और किर्यत नगर भी थे। ये चौदह नगर, उस छोटे क्षेत्र में उनके आसपास के खेतों के साथ थे। ये क्षेत्र बिन्यामीन के परिवार समूह ने पाया था।